

जिले में बाल सभाओं के सफल क्रियान्वयन पर प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु बैठक आयोजित

झुंझुनूर, 8 मई। जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में 9 मई को आयोजित होने वाली बाल सभाओं के सफल क्रियान्वयन पर प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु डाईट परिसर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अमर सिंह पचार की अध्यक्षता के साथ जिले के सभी ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिले के शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई।

पचार ने बताया कि सभी विद्यालयों के लिए एक-एक सम्बलनकर्ता अधिकारी सहित एक चिकित्सा कार्मिक व आंगनबाड़ी कर्मों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि बाल सभा के दौरान राजकीय विद्यालयों में संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं को विस्तार पूर्वक ग्रामवासियों के समक्ष रख कर नामांकन वृद्धि के प्रयास का आह्वान किया जाए, सभी सीबीईओ को पीईईओ स्तर पर बाल सभाओं की तैयारी व उसके बाद किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना बद्ध रूप से चेक लिस्ट बनाए।

उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉक स्तर पर इसकी प्रभावी मनिटरिंग के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बालसभा में मुख्य रूप से राजीव गांधी केरियर गाइडेंस पोर्टल व खसरा तथा रूबेला जैसी बीमारियों व टीकाकरण के बारे में भी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को बताया जाएगा। जिले के सभी राजकीय विद्यालयों की बाल सभा का आयोजन ग्राम के सार्वजनिक स्थल व चौपाल में उचित स्थान पर छाया व जल प्रबंधन के साथ किया जाएगा।

इस दौरान बैठक में एडीपीसी सुभाष चंद्र मीणा, डीईओ (प्रारंभिक) पितराम काला, डाईट प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र यादव, सीबीईओ हाफिज अली, हरफूल सिंह मीणा, एपीसी राजेंद्र कपूरिया, राजेंद्र खीचड़ एडीओ कमलेश तेतरवाल, रविंद्र कृष्णिया, प्रमोद कुमार, मनीष चाहर, कार्यक्रम अधिकारी दिनेश, रोहिताश भडिया, परमैंद्र कुल्हार, श्रवन कुमार, मनोज कुमार सहित ब्लॉक से एसीबीईओ भी उपस्थित थे।